



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindiWebsite : www.rbi.org.inई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

1 दिसंबर 2023

तिमाही बीएसआर-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण – सितंबर 2023

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का बकाया ऋण, सितंबर 2023' शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआई) पोर्टल¹ (वेब-लिंक: <https://dbieold.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=BsrPublications#!12>) पर जारी किया। खाता-स्तरीय जानकारी के आधार पर, यह बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं, यथा, उधारकर्ता का व्यवसाय/ गतिविधि और संगठनात्मक क्षेत्र, खाते के प्रकार और व्याज दरों को प्रस्तुत करता है²। 90 एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े, बैंक समूहों, जनसंख्या समूहों और राज्यों के लिए प्रस्तुत किए गए हैं³।

मुख्य बातें:

- सितंबर 2023 में बैंक ऋण संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर विलय के बाद 15.7 प्रतिशत (विलय के प्रभाव सहित 19.8 प्रतिशत) हो गई, जो एक वर्ष पहले 18.0 प्रतिशत थी; तथापि, बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं ने त्वरित ऋण संवृद्धि दर्ज की।
- उद्योग को दिया गया ऋण कुल बैंक ऋण का लगभग एक चौथाई था; सितंबर 2023 में इसमें 8.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले 12.3 प्रतिशत); पिछली छह तिमाहियों से कार्यशील पूंजी ऋण संवृद्धि दोहरे अंक में बनी हुई है।
- निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र को बैंक ऋण देने में मजबूत संवृद्धि दर्ज की गई और सितंबर 2023 में यह बढ़कर 14.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो एक तिमाही पहले 11.5 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 14.7 प्रतिशत थी।
- बैंक ऋण में व्यक्तिगत ऋण की हिस्सेदारी पांच वर्ष पहले के 22 प्रतिशत से बढ़कर उत्तरोत्तर 30 प्रतिशत से अधिक हो गई।
- कुल बैंक ऋण के साथ-साथ व्यक्तियों को दिए गए ऋण में महिला उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी हाल की अवधि में बढ़ी है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों ने मजबूत ऋण संवृद्धि दर्ज करना जारी रखा।

अजीत प्रसाद

निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1400

¹ सितंबर 2023 के अंतिम रिपोर्टिंग शुरुवार के लिए पाक्षिक फॉर्म-ए विवरणी (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत संकलित) पर आधारित बैंकिंग समुच्चय हमारी वेबसाइट (होम>सांख्यिकी>जारी आंकड़े>पाक्षिक> [भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण](#)) पर पहले ही प्रकाशित किए गए थे और चुनिंदा प्रमुख बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए सितंबर 2023 के लिए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन पर समग्र स्तर का मासिक डेटा भी वेबसाइट होम>सांख्यिकी> जारी आंकड़े >मासिक> बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन पर जारी किया गया।

² जून 2023 के अंत की स्थिति को शामिल करते हुए शृंखला में पिछला डेटा रिलीज़ [31 अगस्त 2023](#) को आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।

³ बीएसआर-1 के लिए संदर्भ तिथि तिमाही का अंतिम दिन है। इन आंकड़ों में 1 जुलाई 2023 से एयक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।